



पिएँ  
डिवाइन  
**नोनी**®  
स्वस्थ रहें





Noni King  
Prof. P. L. Peter  
Founder



प्रो. पीटर का

Original

**DIVINE®**  
**NONI**



दुनिया में असली नोनी  
के फल का पेय है।



**नोनी** जीवित कोशिकाओं  
के लिए एक शक्तिशाली  
भोजन है।

**नोनी**  
में 200 से भी ज़्यादा  
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं।



**नोनी**  
बदन दर्द में  
सहायक है।

**नोनी** शरीर  
से विष बाहर निकाले।





**नोनी** पाचन शक्ति  
बेहतर बनाए।



**नोनी** प्रतिरक्षा  
प्रणाली को  
मज़बूत बनाए।





**नोनी**

**कब्ज दूर करे।**

**नोनी**

**याददास्त बढ़ाए।**





**नोनी** तनाव कम करे  
और शांति प्रदान करे।



**नोनी** महिलाओं  
का मित्र है।





**नोनी** त्वचा चमकाए  
और बालों का  
बढ़ना तेज़ करे।

**नोनी** कोशिकाओं को  
साफ़ करे और  
उनका निर्माण करें।







**नोनी** स्वयं ठीक  
होने की शक्ति बढ़ाए।.

**नोनी** शरीर का  
कायाकल्प करे।.





**नोनी**

शरीर की क्रियाओं को  
नियमित करे।

**नोनी**

शरीर को शक्ति  
प्रदान करे।





**नोनी**

**एक शक्तिशाली  
एंटी-ऑक्सीडेंट**



**नोनी**

**कोशिकाओं को  
पुनर्जीवित करता है**





**नोनी**

**सूजन कम करता है**



**नोनी**

**रक्त शुद्ध करता है**





**नोनी**

**खुशहाली बढ़ाता है**



**नोनी**

**कोशिकाओं का कार्य  
नियंत्रित करता है।**





**नोनी**

**याददाश्त और एकाग्रता  
में सुधार करता है**



**नोनी**

**जोड़ों की गतिशीलता  
को बढ़ावा देता है**





**नोनी**

**सामान्य रक्तचाप  
बनाए रखता है**



**नोनी**

**कोलेस्ट्रॉल का स्तर  
बनाए रखता है**





**नोनी**

**स्वस्थ यौन  
क्रिया को बढ़ावा देता है**



**नोनी**

**स्वस्थ फेफड़ों के  
कार्य को बनाए रखता है**





इन समयों में जब हमारी  
प्रतिरक्षा प्रणाली पर्यावरण  
से दिन-प्रतिदिन के आधार पर  
समझौता करती है, आश्वस्त की



सांस लें कि हम जो भोजन करते हैं,  
कम से कम एक भोजन ऐसा है  
जो विषाक्त पदार्थों के प्रभाव को उल्टा  
कर सकता है-और यह भोजन नोनी है।



प्रकृति ने 'मोरिंडा  
सिट्रिफ़ोलिया' के फल में  
प्रदान किया है एल एमिनो  
एसिड का सही संतुलन,  
एंजाइम और पेप्टाइड्स।



नोनी पोटेशियम, कैल्शियम,  
ज़िंक, आयरन और पोषक  
तत्व का एक स्रोत है।





**नोनी** ज़ख्मों,  
जले, कटे में  
प्रयोग हो।



**नोनी** अंदर-बाहर  
दोनों जगह प्रयोग  
किया जा सके।





**नोनी वज़न को  
बराबर रखे।**



**नोनी  
एक कुदरती पेय  
कंसंट्रेट है।**





**डिवाइन नोनी** उच्च  
कवाॅलिटी, स्वच्छता और  
सफाई से बनाया जाता है।



**डिवाइन नोनी**  
**ISO 22000-2005**  
प्रमाणित कम्पनी का  
उत्पाद है।





**नोनी हर**  
उम्र के व्यक्तियों के  
लिए उपयुक्त है।

**नोनी स्वस्थ**  
और रोगी दोनों के  
लिए उपयुक्त है।







# नोनी


मदद करती है

- \* प्रतिरक्षा-तंत्र
- \* रक्त-परिसंचरण तंत्र
- \* पाचन-तंत्र
- \* चयापचय प्रणाली
- \* त्वचा, बाल और सिर की त्वचा




स्वस्थ और बीमार  
व्यक्ति के लिए नोनी  
सर्वोत्तम पेय पदार्थ है





सम्पूर्ण विश्व में निम्नलिखित शारीरिक समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा अपने शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने के लिए नोनी का उपयोग किया जाता है:

- डायबिटीज
- रक्तचाप
- गठिया रोग
- हृदय रोग
- कैंसर
- कब्ज
- अपच
- गुर्दे की बीमारी
- मासिक धर्म की समस्या
- मोटापा
- लकवा
- बाल झड़ना
- सिरदर्द
- दांत में दर्द
- क्षय
- जुकाम व खांसी
- अल्सर
- त्वचा की समस्या



**208 स्वास्थ्य अवस्थाओं में  
नोनी सेलुलर भोजन  
के रूप में काम करता है।**



भोजन का कोई बंधन नहीं।  
उसके कोई दुष्प्रभाव या  
पश्चात प्रभाव नहीं।



**नोनी** न तो  
औषधि है और न ही  
औषधि का विकल्प।



# डिवाइन नोनी

यदि आप स्वयं और अपने  
परिवार को चाहते हैं।  
डिवाइन नोनी के बारे  
में बतायें।



स्वस्थ और खुश  
रहने के लिए चयन करें।  
आज ही डिवाइन नोनी  
पीना प्रारंभ करें!





# पीने के निर्देश

इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिला लें।  
डिवाइन नोनी को १० गुणा पानी में मिलाएँ।  
डिवाइन नोनी हमेशा खाली पेट,  
खाना खाने से ३० मिनट पहले पिएँ।  
दिन भर बहुत सारा अच्छा और स्वस्थ पानी पिएँ।

## 1 से 3 रे दिन :

सुबह के नास्ते से 30 मिनट पहले। छोटी चम्मच (5 मि.ली.) इँ।  
रात के खाने से 30 मिनट पहले। छोटी चम्मच (5 मि.ली.) इँ।  
बच्चें : सुबह और शाम 1/2 छोटी चम्मच।





### 4 से 6 ठे दिन :

सुबह के नास्ते से 30 मिनट पहले 2 छोटी चम्मच (10 मि.ली.) इं।

रात के खाने से 30 मिनट पहले 2 छोटी चम्मच (10 मि.ली.) इं।

बच्चें : सुबह - शाम 1/2 छोटी चम्मच।

### 1 से 6 ठे महीना : (7वें दिन से)

सुबह के नास्ते से 30 मिनट पहले 3 छोटी चम्मच (15 मि.ली.) इं।

रात के खाने से 30 मिनट पहले 3 छोटी चम्मच (15 मि.ली.) इं।

बच्चें : सुबह और शाम 1/2 खुराक।

शरीर की अवस्था के अनुसार खुराक बढ़ाई जा सकती है।



**आप डिवाइन नोनी खाना खाने के  
3 घंटे बाद ले सकते हैं,  
यदि खाना खाने से पहले लेना संभव न हो।**

दिनभर, शरीर से विषैले पदार्थों को  
बाहर फेंकने के लिए, बहुत सारी मात्रा में अच्छा और स्वच्छ  
पानी पिएँ। यदि आपको विषैले पदार्थों की  
सफ़ाई की प्रतिक्रिया (सिरदर्द या पतला मल या त्वचा में खुजली)  
के लक्षण दिखाई दें तो ज़्यादा पानी पिएँ और  
एक या दो खुराक, अपनी नबियत के हिसाब से, न लें।

नोनी के फायदों का  
लाभ उठायेँ और अपने  
प्रियजनों को बतायेँ!

